



1-थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत पीतलनगरी में हुई हत्या की घटना में शामिल एक और आरोपी गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2022 को वादी श्री विश्व प्रताप सिंह पुत्र श्री रवेन्द्र कुमार सिंह निवासी पीतल नगरी थाना-कटघर मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को एक राय होकर गन्दी-गन्दी गालिया देने तथा उसकी गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-525/2022 धारा-147/148/149/504/302/34 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में थाना कटघर पुलिस ने तीन आरोपीगण को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया तथा साक्ष्यों एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा-3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 05.09.2022 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सकसेना थाना कटघर ने मय हमराही पुलिसबल के एक और वांछित आरोपी नकुल यादव पुत्र जयसिंह यादव निवासी सूरजनगर पीतल बस्ती टंकी के पास थाना कटघर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2-पारिवारिक विवाद को लेकर पत्नी पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर घायल कर देने का आरोपी गिरफ्तार,थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05-09-2022 को वादी निवासी थाना भोजपुर ने अभियुक्त द्वारा वादी की बहन पर जान से मारने की नियत से धारदार चाकू से वार कर घायल कर देने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-291/22 धारा 307/324 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में दिनांक 05.09.2022 की रात्रि को उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना भोजपुर ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपी लियाकत पुत्र शराफत निवासी मौहल्ला खद्वर बाजार कस्बा व थाना भोजपुर, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद किया गया। अवैध चाकू की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त लियाकत उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-292/22 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

3- गांजा/भाग सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है आज दिनांक 06.09.2022 को उ0नि0 श्री सोहनपाल सिंह थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल के चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण क्रमशः 1. मौ0 असलम उर्फ बच्चन पुत्र इन्तेजार हुसैन उर्फ कलुआ निवासी मुंडो काशीराम कालौनी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को मय 1600 ग्राम गांजा/भाग, 2. फईम पुत्र शकिल निवासी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को मय 1 किलोग्राम गांजा 3. इमरान पुत्र शकिल निवासी लल्ला कालौनी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को मय 1 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किये गये। उक्त संबंध अभियुक्तगण क्रमशः मौ0 असलम के विरुद्ध मु0अ0सं0-226/22 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट, अभियुक्त फईम के विरुद्ध मु0अ0सं0- 227/22 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट तथा इमरान के विरुद्ध मु0अ0सं0-228/22 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किये गये।

4-एक राय होकर घर में घुसकर गाली-गलौज,मारपीट करने के दो आरोपी गिरफ्तार,थाना भगतपुर:-

अवगत कराना है दिनांक 05.09.2022 को वादी श्री सत्यपाल सिंह पुत्र कृपाल निवासी ग्राम कचनार थाना भगतपुर, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुये मारपीट करने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 202/2022 धारा- 147/452/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में आज दिनांक 06.09.2022 को उ0नि0 श्री राजकिशोर थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्तगण 1. नरेश पुत्र सोमनाथ निवासी ग्राम कचनाल थाना भगतपुर, मुरादाबाद 2. मोहित पुत्र नरेश निवासी ग्राम कचनाल थाना भगतपुर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।